



# भारतीय रिज़र्व बैंक RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट : [www.rbi.org.in/hindi](http://www.rbi.org.in/hindi)

Website : [www.rbi.org.in](http://www.rbi.org.in)

ई-मेल/email : [helpdoc@rbi.org.in](mailto:helpdoc@rbi.org.in)



संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई-400 001

Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai-400 001 फोन/Phone: 022-2266 0502

19 अप्रैल 2024

## भारतीय रिज़र्व बैंक – बुलेटिन साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक – सारांश

| 1. भारतीय रिज़र्व बैंक – देयताएं और आस्तियां* |           |          |           |        |         |
|-----------------------------------------------|-----------|----------|-----------|--------|---------|
| (₹ करोड़)                                     |           |          |           |        |         |
| मद                                            | 2023      | 2024     |           |        | घट-बढ़  |
|                                               | 14 अप्रैल | 5 अप्रैल | 12 अप्रैल | सप्ताह | वर्ष    |
|                                               | 1         | 2        | 3         | 4      | 5       |
| <b>4. ऋण और अग्रिम</b>                        |           |          |           |        |         |
| 4.1 केंद्र सरकार                              | 114380    | 0        | 0         | 0      | -114380 |
| 4.2 राज्य सरकारें                             | 10259     | 17380    | 12921     | -4459  | 2662    |

\* आंकड़े अनंतिम हैं; घट-बढ़, यदि कोई है, तो पूर्णांक के कारण है।

| 2. विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि*        |                   |               |                            |              |                          |              |               |              |
|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------|--------------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|
| मद                                    | 12 अप्रैल 2024 तक |               | निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़ |              |                          |              |               |              |
|                                       |                   |               | सप्ताह                     |              | मार्च 2024 की समाप्ति पर |              | वर्ष          |              |
|                                       | ₹ करोड़           | मिलियन अ.\$   | ₹ करोड़                    | मिलियन अ.\$  | ₹ करोड़                  | मिलियन अ.\$  | ₹ करोड़       | मिलियन अ.\$  |
|                                       | 1                 | 2             | 3                          | 4            | 5                        | 6            | 7             | 8            |
| <b>1 कुल आरक्षित निधि</b>             | <b>5365440</b>    | <b>643162</b> | <b>-36135</b>              | <b>-5401</b> | <b>-25816</b>            | <b>-3257</b> | <b>565070</b> | <b>56750</b> |
| 1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां#           | 4710510           | 564653        | -46421                     | -6513        | -51335                   | -6297        | 481388        | 48018        |
| 1.2 स्वर्ण                            | 465486            | 55798         | 11105                      | 1241         | 26167                    | 3123         | 87500         | 9623         |
| 1.3 विशेष आहरण अधिकार                 | 150802            | 18077         | -523                       | -93          | -421                     | -55          | 86            | -335         |
| 1.4 आईएमएफ में आरक्षित निधि की स्थिति | 38642             | 4634          | -297                       | -35          | -227                     | -28          | -3904         | -556         |

\* घट-बढ़, यदि कोई है, तो पूर्णांक के कारण है।

# इसमें (ए) भारतीय रिज़र्व बैंक की एसडीआर धारिता, क्योंकि वे एसडीआर धारिता के तहत शामिल हैं; (बी) आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी बॉण्ड में निवेश; और (सी) सार्क और एसीयू मुद्रा स्वेप व्यवस्था के तहत उधार दी गई राशि, शामिल नहीं है।

| 4. अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक – भारत में कारोबार |                        |               |                            |               |                |                |
|-----------------------------------------------|------------------------|---------------|----------------------------|---------------|----------------|----------------|
| (₹ करोड़)                                     |                        |               |                            |               |                |                |
| मद                                            | 5 अप्रैल 2024 को बकाया | पक्षवाड़ा     | निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़ |               |                |                |
|                                               |                        |               | वित्त वर्ष में अब तक       |               | वर्ष-दर-वर्ष   |                |
|                                               |                        |               | 2023-24                    | 2024-25       | 2023           | 2024           |
|                                               | 1                      | 2             | 3                          | 4             | 5              | 6              |
| <b>2 अन्यो के प्रति देयताएं</b>               |                        |               |                            |               |                |                |
| 2.1 कुल जमाराशियां                            | 20998289               | 523062        | 404030                     | 523062        | 1706679        | 2550345        |
|                                               | (20889504)             |               |                            |               |                | (2441560)      |
| 2.1क. संवृद्धि (प्रतिशत)                      |                        | 2.6           | 2.2                        | 2.6           | 10.2           | 13.8           |
|                                               |                        |               |                            |               |                | (13.2)         |
| 2.1.1 मांग                                    | 2601856                | 158002        | 39309                      | 158002        | 192481         | 382116         |
| 2.1.2 मीयादी                                  | 18396433               | 365060        | 364721                     | 365060        | 1514198        | 2168229        |
| 2.2 उधार                                      | 774584                 | 75            | 55756                      | 75            | 221382         | 273499         |
| 2.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं               | 889963                 | -47465        | -6465                      | -47465        | 163712         | 106778         |
| <b>7 बैंक ऋण</b>                              | <b>16601870</b>        | <b>169706</b> | <b>175321</b>              | <b>169706</b> | <b>1884683</b> | <b>2751313</b> |
|                                               | (16077613)             |               |                            |               |                | (2227057)      |
| 7.1क. वृद्धि (प्रतिशत)                        |                        | 1.0           | 1.3                        | 1.0           | 15.8           | 19.9           |
|                                               |                        |               |                            |               |                | (16.1)         |
| 7 क.1 खाद्य ऋण                                | 21208                  | -1873         | 1058                       | -1873         | -18871         | 245            |
| 7 क.2 खाद्येतर ऋण                             | 16580661               | 171578        | 174263                     | 171578        | 1903555        | 2751068        |

1. 14 जुलाई 2023 से आंकड़े में एक गैर-बैंक का बैंक के साथ विलय का प्रभाव शामिल है।

2. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े में विलय के प्रभाव शामिल नहीं हैं।

3. '-': शून्य/नगण्य.

## 6. मुद्रा स्टॉक: घटक और स्रोत

(₹ करोड़)

| मद                                     | निम्न को बकाया |            | निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़ |       |                      |      |          |       |              |      |           |        |
|----------------------------------------|----------------|------------|----------------------------|-------|----------------------|------|----------|-------|--------------|------|-----------|--------|
|                                        | 2024           |            | पखवाड़ा                    |       | वित्त वर्ष में अब तक |      |          |       | वर्ष-दर-वर्ष |      |           |        |
|                                        | 22 मार्च       | 5 अप्रैल   | राशि                       | %     | राशि                 | %    | राशि     | %     | राशि         | %    | राशि      | %      |
|                                        | 1              | 2          | 3                          | 4     | 5                    | 6    | 7        | 8     | 9            | 10   | 11        | 12     |
| एम3                                    | 24830291       | 25375134   | 544843                     | 2.2   | 433507               | 1.9  | 544843   | 2.2   | 2071052      | 10.0 | 2597867   | 11.4   |
|                                        | (24938533)     | (25483919) | (545385)                   | (2.2) |                      |      | (545385) | (2.2) |              |      | (2706651) | (11.9) |
| <b>1 घटक (1.1+1.2+1.3+1.4)</b>         |                |            |                            |       |                      |      |          |       |              |      |           |        |
| 1.1 जनता के पास मुद्रा                 | 3418663        | 3430269    | 11606                      | 0.3   | 23962                | 0.7  | 11606    | 0.3   | 333196       | 11.2 | 129872    | 3.9    |
| 1.2 बैंकों के पास मांग जमाराशि         | 2586888        | 2747522    | 160633                     | 6.2   | 40958                | 1.8  | 160633   | 6.2   | 192957       | 8.9  | 385966    | 16.3   |
| 1.3 बैंकों के पास मीयादी जमाराशि       | 18739918       | 19110923   | 371006                     | 2.0   | 374936               | 2.2  | 371006   | 2.0   | 1531286      | 9.9  | 2067022   | 12.1   |
|                                        | (18848160)     | (19219708) | (371548)                   | (2.0) |                      |      | (371548) | (2.0) |              |      | (2175806) | (12.8) |
| 1.4 रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशि | 84822          | 86420      | 1598                       | 1.9   | -6349                | -8.2 | 1598     | 1.9   | 13613        | 23.6 | 15008     | 21.0   |
| <b>2 स्रोत (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)</b>   |                |            |                            |       |                      |      |          |       |              |      |           |        |
| 2.1 सरकार को निवल बैंक ऋण              | 7313197        | 7615698    | 302501                     | 4.1   | 204341               | 2.9  | 302501   | 4.1   | 854283       | 13.1 | 245825    | 3.3    |
|                                        | (7404752)      | (7703559)  | (298807)                   | (4.0) |                      |      | (298807) | (4.0) |              |      | (333686)  | (4.5)  |
| 2.1.1 रिज़र्व बैंक                     | 994394         | 1273550    | 279156                     |       | 95684                |      | 279156   |       | 85047        |      | -273259   |        |
| 2.1.2 अन्य बैंक                        | 6318803        | 6342148    | 23345                      | 0.4   | 108656               | 1.9  | 23345    | 0.4   | 769236       | 15.2 | 519084    | 8.9    |
|                                        | (6410358)      | (6430009)  | (19651)                    | (0.3) |                      |      | (19651)  | (0.3) |              |      | (606945)  | (10.4) |
| 2.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण       | 16669610       | 16838577   | 168967                     | 1.0   | 170702               | 1.2  | 168967   | 1.0   | 1903225      | 15.0 | 2238239   | 15.3   |
|                                        | (17200297)     | (17362834) | (162537)                   | (0.9) |                      |      | (162537) | (0.9) |              |      | (2762495) | (18.9) |
| 2.2.1 रिज़र्व बैंक                     | 11871          | 11424      | -448                       |       | -6159                |      | -448     |       | 6624         |      | -8966     |        |
| 2.2.2 अन्य बैंक                        | 16657739       | 16827153   | 169414                     | 1.0   | 176861               | 1.2  | 169414   | 1.0   | 1896601      | 15.0 | 2247205   | 15.4   |
|                                        | (17188425)     | (17351410) | (162984)                   | (0.9) |                      |      | (162984) | (0.9) |              |      | (2771462) | (19.0) |

नोट: कोष्ठक में दिए गए आंकड़ों में एक गैर-बैंक के बैंक में विलय का प्रभाव शामिल है।

## 8. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चलनिधि परिचालन

(₹ करोड़)

| तारीख          | चलनिधि समायोजन सुविधा |                 |                    |                             |         |         | स्थायी चलनिधि सुविधायें | ओएमओ (एकमुश्त) |      | निवल अंतर्वेशन(+)/<br>अवशोषण (-)<br>(1+3+5+7+9-2-4-6-8) |
|----------------|-----------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------|---------|---------|-------------------------|----------------|------|---------------------------------------------------------|
|                | रेपो                  | प्रतिवर्ती रेपो | परिवर्तनीय दर रेपो | परिवर्ती दर प्रतिवर्ती रेपो | एमएसएफ़ | एसडीएफ़ |                         | विक्रय         | क्रय |                                                         |
|                | 1                     | 2               | 3                  | 4                           | 5       | 6       |                         | 8              | 9    |                                                         |
| 8 अप्रैल 2024  | -                     | -               | -                  | -                           | 5259    | 83144   | -                       | -              | -    | -77885                                                  |
| 9 अप्रैल 2024  | -                     | -               | -                  | -                           | 4389    | 83146   | -                       | -              | -    | -78757                                                  |
| 10 अप्रैल 2024 | -                     | -               | -                  | -                           | 3990    | 94390   | -                       | -              | -    | -90400                                                  |
| 11 अप्रैल 2024 | -                     | -               | -                  | -                           | 660     | 69655   | -                       | -              | -    | -68995                                                  |
| 12 अप्रैल 2024 | -                     | -               | -                  | -                           | 2535    | 94097   | -                       | -              | -    | -91562                                                  |
| 13 अप्रैल 2024 | -                     | -               | -                  | -                           | 219     | 68366   | -                       | -              | -    | -68147                                                  |
| 14 अप्रैल 2024 | -                     | -               | -                  | -                           | 328     | 71007   | -                       | -              | -    | -70679                                                  |

एसडीएफ़: स्थायी जमा सुविधा; एमएसएफ़: सीमांत स्थायी सुविधा।

उपयुक्त जानकारी इंटरनेट <https://wss.rbi.org.in/> पर देखी जा सकती है।डब्ल्यूएसएस के लिए संकल्पनाएं तथा उन पर आधारित कार्यप्रणालियां डब्ल्यूएसएस संबंधी हस्तपुस्तिका (<https://rbi.org.in/scripts/PublicationsView.aspx?id=15762>) में उपलब्ध हैं।समय शृंखला आंकड़े <https://dbie.rbi.org.in> पर उपलब्ध हैं।

अजीत प्रसाद

उप महाप्रबंधक (संचार)

प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/139